



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23122023-250852
CG-DL-E-23122023-250852

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5205]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 22, 2023/पौष 1, 1945

No. 5205]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 22, 2023/PAUSHA 1, 1945

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2023

का.आ. 5435(अ).— केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्याक का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) के अनुसरण में अंदमान और निकोबार द्वीप, संघ राज्यक्षेत्र पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे अर्थात् :-

- (क) डा.आर.एस.सी जयराज, आईएफएस सेवानिवृत्त, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एआई- अध्यक्ष ;
204, हरिहर पैराडाइस, नेताजी रोड, पी.एन.पुदुर, कोयंबटूर-641041,
तमिलनाडु।
- (ख) डा. जय सुंदर, प्रधान वैज्ञानिक और प्रमुख, पशु विज्ञान प्रभाग, आईसीएआर- केन्द्रीय सदस्य ;
द्वीप, कृषि अनुसंधान संस्थान, पोर्ट ब्लेयर, अंदमान और निकोबार द्वीप।
- (ग) निदेशक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अंदमान और निकोबार प्रशासन, पोर्ट ब्लेयर। सदस्य सचिव।

2. प्राधिकरण का अध्यक्ष और सदस्य राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

3. प्राधिकरण ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसी प्रक्रियाओं का अनुपालन करेगा जो उक्त अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट हों।

4. प्राधिकरण अपने विनिश्चय अंदमान और निकोबार, संघ राज्यक्षेत्र के लिए, पैरा 5 के अधीन गठित संघ राज्यक्षेत्र स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की सिफारिशों के पश्चात् करेगा।

5. केन्द्रीय सरकार, अंदमान और निकोबार द्वीप प्रशासन के परामर्श से प्राधिकरण की सहायता करने के प्रयोजन के लिए अंदमान और निकोबार द्वीप, संघ राज्यक्षेत्र विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (जिसे इसमें इसके पश्चात् समिति कहा गया है) का गठन करती है जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

- | | | |
|------|---|-------------|
| (क) | डा. दिलीप कुमार झा, वैज्ञानिक एफ/कार्यालय-प्रभारी अटल, समुद्र विज्ञान और प्रौद्योगिकी अध्यक्ष ;
द्वीप केन्द्र, राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान, अंदमान और निकोबार द्वीप। | |
| (ख) | श्रीमति पर्ल देवदास, सहायक प्राचार्य और प्रमुख, भूगोल विभाग, जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय (जेएनआरएम), पोर्ट ब्लेयर, अंदमान और निकोबार द्वीप। | सदस्य ; |
| (ग) | डा. जी पद्मावती, प्राचार्य, समुद्री अध्ययन और समुद्री जीव विज्ञान पांडिचेरी विश्वविद्यालय, अंदमान और निकोबार कैम्पस, ब्रूकशब्द, पोर्ट ब्लेयर-744112, अंदमान और निकोबार द्वीप। | सदस्य ; |
| (घ) | डा. उदय शंकर बनर्जी, सहायक प्राचार्य, विभाग-प्रभारी, (अर्थशास्त्र) अंदमान कॉलेज (एएनसीओएल), चक्करगांव, पोर्ट ब्लेयर। | सदस्य ; |
| (ङ.) | श्री सीमांत कुमार डेका, सहायक प्राचार्य और प्रमुख, पर्यटन और यात्रा प्रबंधन विभाग, जवाहर लाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय (जेएनआरएम), पोर्ट ब्लेयर, अंदमान और निकोबार द्वीप। | सदस्य ; |
| (च) | डा. एस. बालाजी, प्राचार्य और प्रमुख, तटीय आपदा प्रबंधन विभाग, पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पोर्ट ब्लेयर कैम्पस-744112, अंदमान। | सदस्य ; |
| (छ) | डॉ. आई जयशंकर, ज्येष्ठ वैज्ञानिक (कृषिवानिकी) प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन विभाग, आईसीएआर, केन्द्रीय द्वीप समूह कृषि अनुसंधान संस्थान, पोर्ट ब्लेयर-744105, अंदमान और निकोबार द्वीप। | सदस्य ; |
| (ज) | सदस्य सचिव, अंदमान और निकोबार प्रदूषण नियंत्रण समिति, पोर्ट ब्लेयर। | सदस्य सचिव। |

6. समिति के अध्यक्ष और सदस्य राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

7. हितों के टकराव से बचने के लिए,-

(i) प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य तथा समिति.-

(क) यह घोषित करेंगे कि वे किस परामर्श संगठन और परियोजना के प्रस्तावक से भी सहयुक्त हैं;

(ख) किसी परियोजना के लिए पर्यावरण समाघात निर्धारण (ईआईए) और पर्यावरण प्रबंधन योजना की तैयारी के संबंध में कोई परामर्श या सहयोगी नहीं लेंगे, जो उनके कार्यकाल के दौरान प्राधिकरण द्वारा विनिश्चित और समिति द्वारा मूल्यांकित किया गया है; तथा

(ii) यदि पूर्ववर्ती पांच वर्षों में, अध्यक्ष या समिति के किसी भी सदस्य ने किसी परियोजना प्रस्तावक के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान की हैं या पर्यावरण समाघात निर्धारण अध्ययन आयोजित किया है, तो वे स्वयं को ऐसे समर्थकों द्वारा प्रस्तावित किसी भी परियोजना के मूल्यांकन की प्रक्रिया से समिति की बैठक से अलग करेंगे।

8. समिति ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसी प्रक्रियाओं का अनुपालन करेगी जो उक्त अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट हो।

9. समिति सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करेगी और अध्यक्ष प्रत्येक मामले में सर्वसम्मति पर पहुंचने का प्रयास करेगा और यदि वे सर्वसम्मति पर पहुंचने में असफल रहते हैं तो बहुमत का मत अभिभावी होगा।

10. अंदमान और निकोबार प्रशासन प्राधिकरण, के सचिवालय के रूप में कार्य करने के लिए किसी अभिकरण को विनिर्दिष्ट करेगी और समिति तथा सचिवालय वित्तीय और संभार तंत्र सहायता जिसके अंतर्गत आवास, परिवहन और उक्त अधिसूचना के अधीन उनके कृत्यों के संबंध में ऐसी अन्य सुविधाएं भी हैं, उपलब्ध कराएंगी।

11. प्राधिकरण और समिति के अध्यक्ष और सदस्यों को बैठक फीस, यात्रा भत्ता और महंगाई भत्ता अंदमान और निकोबार द्वीप, संघ राज्य क्षेत्र के सुसंगत नियमों के उपबंधों के अनुसार संदेय किया जाएगा।

[फा. सं. आईए 3-13/6/2023-आईए-3]

डॉ. सुजीत कुमार बाजपेयी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd December, 2023

S.O. 5435(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government hereby constitutes the Union territory of Andaman and Nicobar Islands Environment Impact Assessment Authority (hereinafter referred to as the Authority) comprising of the following persons, namely: -

- | | | |
|-----|---|----------------------|
| (a) | Dr. R.S.C. Jayaraj, IFS Retd. Principal Chief Conservator of Forests, AI-204, Harihar Paradise, Netaji Road, P.N. Pudur, Coimbatore-641041, Tamil Nadu. | - Chairman; |
| (b) | Dr. Jai Sunder, Principal Scientist and Head, Division of Animal Science, ICAR- Central Island Agricultural Research Institute Port Blair, Andaman and Nicobar Islands. | - Member; |
| (c) | Director, Science and Technology, Andaman and Nicobar Administration, Port Blair. | - Member- Secretary. |

2. The Chairman and Members of the Authority shall hold office for a period of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

3. The Authority shall exercise such powers and follow such procedures as specified in the said notification.

4. The Authority shall take its decision on the recommendations of the Union territory level Expert Appraisal Committee constituted under paragraph 5 for the Union territory of Andaman and Nicobar.

5. The Central Government, in consultation with the administration of Andaman and Nicobar Islands, for the purpose of assisting the Authority, hereby constitutes the Union territory of Andaman and Nicobar Islands Expert Appraisal Committee (hereinafter referred to as the Committee), comprising of the following persons, namely:-

- | | | |
|-----|--|---------------------|
| (a) | Dr. Dilip Kumar Jha, Scientist F/Officer-In-Charge, Atal Centre for Ocean Science and Technology for Islands, National Institute of Ocean Technology, Andaman and Nicobar Islands. | - Chairman; |
| (b) | Mrs. Pearl Devdas, Associate Professor and Head, Dept. of Geography, Jawaharlal Nehru Rajkeeya Mahavidyalaya (JNRM), Port Blair, Andaman and Nicobar Islands. | - Member; |
| (c) | Dr. G Padmavati, Professor, Department of Ocean Studies and Marine Biology Pondicherry University Andaman and Nicobar Campus, Brookshabad, Port Blair -744112, Andaman and Nicobar Islands. | - Member; |
| (d) | Dr. Uday Shankar Banerjee, Assistant Professor, Department In-charge (Economics), Andaman College (ANCOL), Chakkargaon, Port Blair. | - Member; |
| (e) | Sh. Seemanta Kumar Deka, Assistant Professor and Head, Department of Tourism and Travel Management, Jawaharlal Nehru Rajkeeya Mahavidyalaya (JNRM), Port Blair, Andaman and Nicobar Islands. | - Member; |
| (f) | Dr. S. Balaji, Professor and Head, Dept. Coastal Disaster Management, Pondicherry University, Port Blair Campus- 744112, Andaman. | - Member; |
| (g) | Dr. I. Jaisankar, Senior Scientist (Agroforestry) Natural Resource Management Division, ICAR-Central Island Agricultural Research Institute, Port Blair-744105, Andaman and Nicobar Islands. | - Member; |
| (h) | Member Secretary, Andaman and Nicobar Pollution Control Committee, Port Blair. | - Member Secretary. |

6. The Chairman and Members of the Committee, shall hold office for a period of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.
7. In order to avoid any conflict of interest, -
- (i) the Chairman and Members of the Authority, and the Committee shall, -
- (a) declare to which consulting organisation they have been associated with and also the project proponents;
 - (b) not undertake any consultation or associate with regard to preparation of Environment Impact Assessment and Environment Management Plan for project, which is to be decided by the Authority or to be appraised by the Committee during their tenure; and
- (ii) in the preceding five years, if the Chairman or any Member of the Committee has provided consultancy services or conducted Environment Impact Assessment studies for any project proponent, they shall recuse themselves from the meetings of the Committee from the process of appraisal of any project proposed by such proponents.
8. The Committee shall exercise such powers and follow such procedures as specified in the said notification.
9. The Committee shall function on the principle of collective responsibility and the Chairman shall endeavour to reach consensus in each case, and if they fail to reach consensus, the view of the majority shall prevail.
10. The administration of Andaman and Nicobar shall specify an agency to act as secretariat of the Authority and the Committee and the secretariat shall provide financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect of their functions under the said notification.
11. The sitting fee, travelling allowances and dearness allowances to the Chairman and Members of the Authority and the Committee, shall be paid in accordance with the provisions of relevant rules of the Union territory of Andaman and Nicobar Islands.

[F. No. IA3-13/6/2023-IA.III]

Dr. SUJIT KUMAR BAJPAYEE, Jt. Secy.